



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 329]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जून 19, 2014/ज्येष्ठ 29, 1936

No. 329]

NEW DELHI, THURSDAY, JUNE 19, 2014/JYAISTHA 29, 1936

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 जून, 2014

सं. 28 /2014-सीमा शुल्क (एडीडी)

सा.का.नि. 414(अ).—अभिहीत प्राधिकारी ने, चीन जनवादी गणराज्य में मूलतः उद्गमित या वहां से निर्यात किए गए, सभी प्रकार के प्लास्टिक प्रोसेसिंग या इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन जिसे इंजेक्शन प्रेस के रूप में जाना जाता है जिनकी कलेम्पिंग क्षमता 40 टन से कम और 1000 टन से अधिक नहीं होती, (जिसे इसके पश्चात संबद्ध माल भी कहा गया है) जो सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की पहली अनुसूची के शीर्ष के अंतर्गत आता है, जिस पर भारत सरकार के वित्त मंत्रालय(राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं० 39/2010-सीमा शुल्क, तारीख 23 मार्च, 2010 सा.का.नि. 210 (अ) तारीख 23 मार्च, 2010 के तहत प्रतिपादन शुल्क अधिरोपित किया गया था, के आयात के मामले में भारत के राजपत्र असाधारण, भाग I, खंड 1, तारीख 9 मई, 2014 में प्रकाशित अधिसूचना सं० 15/2/2014-डीजीएडी, तारीख 9 मई, 2014 के तहत, उक्त सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 9क की उपधारा (5) के साथ पठित सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर प्रतिपादन शुल्क का निर्धारण और संग्रहण तथा क्षति का अवधारण) नियम 1995 (जिसे इसके पश्चात "उक्त नियम" भी कहा गया है) के नियम 23 के तहत, प्रतिपादन शुल्क जारी रखने के मामले में समीक्षा आरंभ की है और समीक्षा के संपन्न होने तक उक्त सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 9क की उपधारा (5) के तहत प्रतिपादन शुल्क को इसकी समाप्ति की तारीख से एक साल की अवधि तक बढ़ाने की सिफारिश की है;

अतः अब केन्द्रीय सरकार, उक्त नियम 23 के साथ पठित उक्त सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 9क की उपधारा (1) और उपधारा (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 39/2010-सीमा शुल्क, तारीख 23 मार्च, 2010 भारत के राजपत्र,

सा.का.नि. 210(अ) तारीख 23 मार्च, 2010 के द्वारा प्रकाशित हुई थी, में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :-

उक्त अधिसूचना में, पैराग्राफ 2 के पश्चात निम्नलिखित पैराग्राफ अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“3. पैराग्राफ 2 में कुछ भी निहित के बावजूद यह अधिसूचना 11 मई, 2015 जिसमें यह तारीख भी शामिल है, तक प्रभावी रहेगी। ”

[फा.सं. 354/53/2009-टीआरयू (भाग-I)]

राजकुमार दिग्विजय, अवर सचिव

टिप्पणी: प्रधान अधिसूचना को दिनांक 23 मार्च, 2010 को सा.का.नि. 210(अ) के तहत भारत के राजपत्र असाधारण, भाग II, खंड-3 के उपखंड (i) में प्रकाशित किया गया था।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 19th June, 2014

No.28/2014-Customs(ADD)

G.S.R. 414(E).—Whereas, the designated authority *vide* notification No. 15/2/2014-DGAD, dated the 9th May, 2014, published in Part I, Section 1 of the Gazette of India, Extraordinary, dated the 9th May, 2014, has initiated review, in terms of sub-section (5) of section 9A of the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975) and in pursuance of rule 23 of the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995 (hereinafter referred to as the said rules), in the matter of continuation of anti-dumping duty on all kinds of plastic processing or injection moulding machines, also known as injection presses, having clamping force not less than 40 tonnes and not more than 1000 tonnes, originating in or exported from China PR, imposed *vide* notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 39/2010- Customs, dated the 23th March, 2010, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R.210(E), dated the 23th March, 2010, and has requested for extension of anti-dumping duty for a further period of one year, in terms of sub-section (5) of section 9A of the said Customs Tariff Act, pending the completion of the review;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (5) of section 9A of the said Customs Tariff Act and in pursuance of rule 23 of the said rules, the Central Government hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 39/2010- Customs, dated the 23th March, 2010, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R.210(E), dated the 23th March, 2010, namely: -

In the said notification, after paragraph 2, the following paragraph shall be inserted, namely: -

“3. Notwithstanding anything contained in paragraph 2, this notification shall remain in force upto and inclusive of the 11th day of May, 2015.”

[F. No. 354/53/2009-TRU (Pt-I)]

RAJ KUMAR DIGVIJAY, Under Secy.

Note: The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section-3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 210(E), dated the 23rd March, 2010.